

Shivalik Bimetal Controls Ltd.







(A Govt. of India Recognised Star Export House) Regd. Off.: 16 - 17, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan - 173213, H.P. (INDIA)

Ger. Regn. No. 44 111 15173744

Phone: + 91 - 1792 - 230578 Fax: + 91 - 1792 - 230475, 230578

Email: plant@shivalikbimetals.com Website: www.shivalikbimetals.com

Secretarial / Investor Department: investor@shivalikbimetals.com

CIN: L27101HP1984PLC005862

SBCL/BSE/2017-18/06

22nd April, 2017

Bombay Stock Exchange Limited Corporate Relationship Department, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001.

Subject: Submission of Notice published in Newspaper with respect to transfer of Equity shares to DEMAT account of the Investor Education and Protection ("IEPF") Authority.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of notice for the attention of equity shareholders of the Company in respect of transfer of equity shares of the Company to DEMAT account of the IEPFA, published on 22nd April, 2017 in the Financial Express (Delhi, Mumbai and Chandigarh edition) in English and Jansatta in Hindi, pursuant Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017.

This is for your information and record.

For Shivalik Bimetal Controls Ltd.

For SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LTD.

Company Secretary Aarti Jassal

Company Secretary

Govt to auction 4 GW wind projects this financial year

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, April 21

THE GOVERNMENT PLANS to auction wind power projects of about 4 gigawatt (GW) capacity in tranches this year and the first round of bidding is expected to take place next month, a senior official said on Friday.

"We have planned to set up about 4 GW of wind power capacities through auction route. The auction would be done in batches. The first batch of such auction is being planned next month," Solar Energy Corporation of India (SECI) managing di-

OICICI

Dividend

Dividend

Dividend

Dividend

Dividend

Dividend

Direct Plan - Dividend

Direct Plan - Dividend

Quarterly Dividend

Days Plan D

Dividend Option

ICICI Prudential Long Term Plan

ICICI Prudential Corporate Bond Fund

record date under the respective Schemes.

the record date shall be April 27, 2017.

Place: Mumbai

Date : April 21, 2017

No. 031/04/2017

Investors are requested to take a note of the above.

Direct Plan - Quarterly Dividend

Direct Plan - Quarterly Dividend

Direct Plan - Dividend Option

Plan B - Quarterly Dividend

PRUDENTIAL TO

MUTUAL FUND

rector Ashvini Kumar said. The SECI is the nodal agency

for holding auction of 4 GW wind power projects this fiscal.

The auction is part of the government's plan to set up wind power capacity of 60 GW by 2022. "There should be auction of 5-6 GW wind power capacity every year after this fiscal for meeting the target of 60 GW wind energy by 2022," Kumar said.

The government has decided to go through the bidding route as the first ever auction of wind power projects in February 2017 had seen power tariffs falling to all-time low of ₹3.46 per unit.

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.

Corporate Office: One BKC 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400051.

Tel: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, website: www.icicipruamc.com,

email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway,

Goregaon (E), Mumbai - 400063. Tel: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan -

Series 73 - 369 Days Plan T, ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 73 - 390

Days Plan I, ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 73 - 407 Days Plan C,

ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 74 - 370 Days Plan A, ICICI Prudential

Fixed Maturity Plan - Series 74 - 367 Days Plan C, ICICI Prudential Multiple Yield

Fund - Series 6 - 1100 Days Plan E, ICICI Prudential Long Term Plan, ICICI Prudential

Corporate Bond Fund and ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund -

Notice is hereby given to all the investors/unit holders of the Schemes that

April 27, 2017* has been approved as the record date for declaration of the following

dividend under the Schemes. Accordingly, dividend will be paid to all the unit

holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/

Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under

the dividend option of the Schemes, at the close of business hours on the record date.

ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 73 - 369 Days Plan T

ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 73 - 390 Days Plan I

ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 73 - 407 Days Plan C

ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 74 - 370 Days Plan A

ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 74 - 367 Days Plan C

ICICI Prudential Multiple Yield Fund - Series 6 - 1100 Days Plan E

ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IX - 1378

Subject to deduction of applicable dividend distribution tax.

of dividend payout and statutory levy, if any.

Rate of dividend

(₹ Per unit)

(Face value of

₹ 10/- each) \$#

0.0500

0.0500

0.0500

0.0500

0.0500

0.0500

0.0500

0.0500

0.0072

0.1256

0.1226

0.1544

0.0500

0.0500

\$ The dividend payout will be subject to the availability of distributable surplus and

may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the

It should be noted that pursuant to payment of dividend, the NAV of

the dividend option of the respective Schemes would fall to the extent

Suspension of trading of units of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 73

369 Days Plan T (FMP - 73 - 369 D PI T), ICICI Prudential Fixed Maturity Plan -

Series 73 - 390 Days Plan I (FMP 73 - 390 D PI I), ICICI Prudential Fixed Maturity

Plan - Series 73 - 407 Days Plan C (FMP 73 - 407 D Pl C), ICICI Prudential Fixed

Maturity Plan - Series 74 - 370 Days Plan A (FMP 74 - 370 D Pl A), ICICI Prudential

The units of FMP - 73 - 369 D PI T, FMP 73 - 390 D PI I, FMP 73 - 407 D PI C, FMP 74

370 D PI A and FMP - 74 - 367 D PI C are listed on National Stock Exchange of India

Limited (NSE). The trading of units of FMP - 73 - 369 D PI T, FMP 73 - 390 D PI I,

FMP 73 - 407 D PI C, FMP 74 - 370 D PI A and FMP - 74 - 367 D PI C have been

suspended on NSE with effect from closing hours of trading of April 24, 2017 and

shall be available for trading on roll over. For the purposes of redemption proceeds,

CALL MTNL/BSNL: 1800 222 999 • Others: 1800 200 6666 • Or, apply online at www.icicipruamc.com

Capital Protection Oriented Fund disclaimer: The Scheme offered is "oriented

towards protection of capital" and "not with guaranteed returns". The orientation

towards protection of the capital originates from the portfolio structure of the scheme

and not from any bank guarantee, insurance cover etc. The ability of the portfolio to meet capital protection on maturity to the investors can be impacted in certain

circumstances including changes in government policies, interest rate movements

in the market, credit defaults by bonds, expenses, reinvestment risk and risk associated with trading volumes, liquidity and settlement systems in equity and debt markets.

Accordingly, investors may lose part or all of their investment (including original amount invested) in the Scheme. No guarantee or assurance, express or implied,

is given that investors will receive the capital protected value at maturity or any

other returns. Investors in the Scheme are not being offered any guaranteed/assured

NSE Disclaimer: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE

should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information Document

(SID) has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or

completeness of any of the contents of the SID. The investors are advised to refer to

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme

the SID for the full text of the Disclaimer clause of the NSE.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Authorised Signatory

Fixed Maturity Plan - Series 74 - 367 Days Plan C (FMP - 74 - 367 D PI C)

* or the immediately following Business Day, if that day is a Non-Business Day.

Series IX - 1378 Days Plan D (the Schemes)

Plans/Options under the Schemes

ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Wind power capacity of 1 GW was auctioned by SECI in February.

Power minister Piyush Goyal in February had indicated that the government could go for more such auctions in future as the average wind tariff, that was hovering above ₹5 per unit earlier due to feeding of rates and lack of transparency, dropped to all-time low of ₹3.46 per unit in tariff-based bidding.

The wind power tariff has been decided on the basis of inputs, such as cost of land and equipment, and borrowing expenses, provided by power regulators.

NAV as on

April 20, 2017

(₹ Per unit)

12.7371

12.7806

12.8407

12.6915

12.7260

12.1638

12.2804

12.7200

11.2258

10.6479

10.5403

11.1848

11.2309

11.4503

PUBLIC NOTICE B. P. CAPITAL LIMITED

CIN- L74899DL1994PLC057572 Registered Office- 702, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 Phone: 011-43571042, 43571043, Fax: 011-43571047

E-mail id: bpcapitallimited@gmail.com, Website: www.bpcapital.in Before the Central Government

Regional Director, Northern Region Bench In the matter of Companies Act, 2013, Section 13(4) r/w Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of B. P. Capital Limited having its registered office at 702, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Petitioner Notice is hereby given to the General Public that an application is being made to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed through postal ballot on 14th April, 2017 to enable the company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region Bench B-2 Wing, 02nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below

Regd. Office:- 702, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New For and on behalf of

> B. P. Capital Limited Ramesh Kumar Gupta

> > (Director)

(DK Mittal)

Managing Director DIN: 00047724

Public Notice in Form No INC- 26

Date: April 22, 2017

Place: New Delhi

(Pursuant to rule 30 the companies (Incorporation) Rules, 2014 BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, **NEW DELHI-110003**

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and rule 30(6)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

IN THE MATTER OF M/S EXZEO SOFTWARE PRIVATE LIMITED, CIN: U72200DL2012FTC240073 A COMPANY INCORPORATED UNDER THE COMPANIES ACT, 1956 & HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT P-44, GROUND FLOOR, PANDAV NAGAR, MAYUR VIHAR PHASE – I, DELHI- 110092

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of Alteration of Memorandum of Association of the Company in terms of Special resolution passed at the extra ordinary general Meeting held on 18th April, 2017 to enable the company to change its Registered Office from "NCT of Delhi" to "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered office of the Company may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an Affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the date of publication of this notice

with a copy of the applicant company at its Registered Office. For & on Behalf of **EXZEO SOFTWARE PRIVATE LIMITED VADIVEL KUMAR THANGAVELU** DIN: 03029881 **SANJAY MADHU** DIN: 05296869

DATE: 18th April 2017 PLACE: New Delhi



Date: 17.04.2017

बैंक ऑफ बडौदा (Bank of Baroda) Branch: SH-297, Shastri Nagar, (Opp: Uttam School for girls), Ghaziabad (UP)

POSSESSION NOTICE

The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Baroda under

the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 8 & (9) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 ssued a Demand Notice dated 16.01.2017, calling upon the Borrower/s (1) Mrs Malti Tyagi W/o Satish Chand Tyagi (2) Mr Saurabh Tyagi S/o Mr Satish Chand Tyagi to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 9,86,847.00 (Rupees Nine Lakhs Eighty Six thousand Eight Hundred forty seven only) outstanding as on 12.01.2017 (inclusive of interest up to 31.12.2016 within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers/guarantors having failed to repay the amount, notice is

hereby given to the borrowers/guarantors and the Public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said ordinance act read with rule 9 of the said rules on the 17th day of April of the The borrowers/guarantors in particular and the public in general is hereby

cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda for an amount of Rs. 9,86,847.00 (Rupees Nine Lakhs eighty six thousand eight hundred forty seven only) outstanding as on 12.01.2017 (inclusive of interest up to 31.12.2016) and interest and other charges thereon.

Description of the Immovable Property Equitable mortgage property situated at house 48A, Block B, First Floor,

Nandgram, Ghaziabad UP. Area of House - 49.885 sq meters, East: 8 Meter wide road on Ground floor West: Flat No. 33A North: 6.1 Meter wide road on Ground floor South: Flat No. 47A

Place: Ghaziabad **Authorised Officer** Shivalik Bimetal Controls Ltd. Registered office:-16 18, New Electronics Complex,

Complex, New Delhi-110019 Website:-www.shivalikbimetals.com, Email: investor@shivalikbimetals.com

Chambaghat Distt. Solan HP 173213

Head Office: H-2, Suneja Chambers, IInd Floor, Alaknanda Commercial

PUBLIC NOTICE FOR TRANSFER OF SHARES TO DEMAT ACCOUNT OF THE IEPF AUTHORITY ("IEPFA") TO THE EQUITY SHAREHOLDERS

SITUATION I: TRANSFER OF SHARES TO IEPF ON WHICH DIVIDEND UNPAID/ UNCLAIMED SINCE FY 2008-09 (FINAL DIVIDEND)

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") w.e.f 07th September, 2016 and as amended on 28th February, 2017, the equity shares of the Company in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company

Members are requested to encash their respective dividend(s) for all the last 7 years at the earliest before the expiry of transfer due date i.e 31st May, 2017, MCA has notified the IEPF Amendment Rules, 2017 which came into force on 28th February, 2017 notifying therein 31st May, 2017 as the due date of transfer of shares in respect of dividend have not been claimed /paid for last 7 years since final dividend for the financial year 2008-09.

to DEMAT account of Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority

SITUATION II: TRANSFER OF SHARES TO IEPF ON WHICH DIVIDEND UNPAID UNCLAIMED SINCE FY 2009-10 (INTERIM DIVIDEND) Members are requested to encash their respective dividend(s) for all the last 7 years at the

Audit, Transfer and Refund) Rules, 2017, failing which the underlying shares in respect of which dividend warrant(s) remain unclaimed for last 7 years consecutively from the financial

PROCESS FOR CLAIMING ABOVE SAID DIVIDEND & SHARES In view of above, the members who have not yet encashed their dividend warrant(s) for the

last 7 years consecutively once again requested to please submitting the written application at the earliest along with a self-attested copy of PAN card, cancelled cheque, address proof and the original un-cashed dividend warrant (if any) or a duly filled indemnity bond on plain paper (available on the website of our RTA i.e. www.masserv.com) to RTA/the Company as per details given hereunder:

Registrar & Share Transfer Agen The Company MAS Services Limited Company Secretary T-34, IInd Floor, Shivalik Bimetal Controls Ltd. Okhla Industrial Area Phase-II, H-2, Suneja Chambers, IInd Floor, Alaknanda Commercial Complex, New New Delhi-110020, Delhi, INDIA Delhi-110019 Ph No. +91 11 26387281, 82, 83 Ph No. +91 -11-26027174/175 Email id.: info@masserv.com Email id.: investor@shivalikbimetals.com Fax No.:-011-26387384

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has sent individual notices to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority, at their latest available address registered with the Company, advising them to claim the dividends. The Company has uploaded details of concerned shareholders whose shares are due for

transfer to the DEMAT account of the IEPF Authority on its website at www.shivalikbimetals.com. The concerned shareholders who are holding shares in DEMAT form, may please note that the Company shall inform the concerned depository by way of corporate action, where the shareholders have their accounts for transfer of the shares in favour of the IEPF Authority.

The concerned shareholders who are holding shares in physical form, may please note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them and after issue of duplicate share certificate, the Company shall inform the concerned depository by way of corporate action to convert the shares underlying such duplicate share certificate(s) into DEMAT form and transfer in favour of the IEPf Authority. The shareholder(s) may please note that the details uploaded by the Company on

its website shall deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s)

by the Company for the purpose of transfer of physical shares to the said DEMAT account. All benefits accruing on such shares viz dividend, bonus shares, split, consolidation, fraction etc. except right issue shall also be transferred to IEPFA. The Concerned shareholders may note that, upon such transfer, they can claim the said share(s) along with the dividend(s) from IEPF Authority after following the procedure prescribed under IEPF Rules. No claim shall, however, lie against the Company in respect of the said unclaimed dividends and the shares transferred as above.

Place: New Delhi Date: 21.04.2017

By Order of the Board Shivalik Bimetal Controls Ltd. **Aarti Jassal**



Rampura Branch, New Delhi, **Delhi Metro II**

E- AUCTION

SALE NOTICE

LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD AND DOCUMENTS 24.05.2017 UPTO 5.00 P.M. Sale of immovable property /ies mortgaged to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No.54 of 2002)

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF MOVABLE & IMMOVABLE PROPERTIES

Whereas. the Authorized Officer of Bank of Baroda had taken possession of the following property/ies pursuant to the notice issued under Sec 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in the following Ioan accounts with right to sell the same fo realization of Bank's dues plus interest as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act proposes to realize the Bank's dues by sale of the said property/ies. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website.

Name of the Account & Branch	Name of the owner	Demand Notice Date		Date/Time of	A/c & IFSC Code for Bid Submis-sion & Name of the A/c
Parkash Deepak Kumar Prop.	Property No.: Private No.23, Part of Property no.1074-75, situated at First Floor, Jyoti Market, Gandhi Gali, Fatehpuri, Delhi-110006 measuring 92.00 square feet standing in the name of Mr. Ankit Mittal s/o Mr. Deepak Mittal, Bounded:- North: Other Room, South: Common Passage, East: Common Passage, West: Other Room	Rs. 78,35,362.93 /- plus future interest and other charges	Rs. 20.72 Lakhs Rs. 2.07 Lakh Rs. 0.25 Lac	25.05.2017 From 11.00 A.M. TO 12.00 Noon With further unlimited extension of time by 5 mins if the bid is placed in the last minute	A/c 21240013201005 in the name of Sundry Deposit RTGS Inward, IFSC Code: BARB0TRDRAM where '0' is zero

Mr. Nitin Verma Mob: 8130999139, Ph: 011-28311164 24.05.2017, 11.00 AM to 5.00 PM **TERMS & CONDITIONS:**

(1) To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on any property. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property/ ies put on auction and claims/ rights/ (2) The interested bidders who require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding

Mr. Rikin Brahmaxatriya, Mob. No.09978591888, 079-40230808/807/806/831/832/833, Email ID : kushal@auctiontiger.net rikin@abcprocure.com. (3) The bidders are advised to go through the detailed Terms & Conditions of e-Auction available on the Web Portal of M/s E-Procurement

process etc., may contact M/S E-Procurement Technologies Ltd. (abc procure), Contact Person: Kushal Kothary, Mob.No.8980690773,

Technologies Ltd., (https://bob.auctiontiger.net) & (http://www.publishtenders.gov.in) before submitting their bids and taking part in the e-This Notice is also treated as 15 days Statutory sale notice to borrower and Guarantor (L/Rs) Under Rule 8(6) Security Interest

(Enforcement), Rules 2002.

Place: New Delhi, Date: 22.04.2017

Authorized Officer, Bank of Baroda

POSSESSION CUM AUCTION SALE NOTICE SALE OF IMMOVABLE ASSETS CHARGED TO THE BANK UNDER THE SECURITISATION AND

RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002. Notice is hereby given to the public in general and to the borrower, co-borrowers and the guarantors in particular, by the Authorized Officer, that the under mentioned property is mortgaged to DCB BANK LTD., New Delhi. The Authorized Officer of the Bank has taken the physical possession under the provision of Securitisation and Reconstruction of Financial Asses and Enforcement of Security Interest Act, 2002 on 17-04-2017. The property will be sold by tender cum public auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and cost etc. as per

The property will be sold "as is where is" and "as is what is" condition. This is also a notice to the borrower, co-borrowers and the guarantors of the loan about holding of the auction cum sale on the mentioned date, if their outstanding dues are Name of the Borrower | Details of Mortgage | Reserve | Earnest | Date & Time | Date & Time |

& Guarantors	Property	Price	Money Deposit	of Inspection		
SAJEEFA BIBI AND M/SKSTEXTLE	Property Bearing No. IX/4009,OUT OF KHASRANO-142 GALI NO-17, AJIT NAGAR, GANDHINAGAR,DELHI-110031	6,00,000/- (Six Lakh Only)	60,00,000/-	20-05-2017 11:30 AM TO 2:00 PM	11:30 AM TO 2:00 PM	Rs. 38,27,719.00 (Rupees Thirty Eight Lakh Twenty Seven Thous and Seven Hundred Nineteen Only) As On 17-04-2017
Offers are invited in sealed envelope by the undersigned from the intending buyers/ bidders for the purchase of the above					nase of the above	

said property. The interested buyer may send their offer for the aboye property in the sealed envelope along with Demand Draft in favor of "DCB BANK LTD.", New Delhi toward the "Earnest Money Deposit" at DCB BANK LTD., 7/56 3rd Floor,Desh Bandhu Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 on or before 4:00 PM of 22-05-2017. The sealed offer will be opened on 23-05-2017 at 1:00 PM on the date of auction. The EMD is refundable without any interest if the bid is not successful. The intending buyer may inspect the property/ asset latest by the date mentioned above for which they may contact Mr. Shyamsunder Chandhok or MR. Mayank Dutt Chaudhary (011-66133469, 011-66136300). The offer without earnest money will be summarily rejected. The undersigned reserve the rights to accept or reject any or all the offers or adjourned / postpone the sale without assigning any reason thereof. If the offer is accepted, the purchaser will have to deposit 25% (less EMD Amount) of the sale price immediately on the auction day and if the purchaser fails to deposit the same, the amount deposited towards earnest money shall be forfeited and the property shall forthwith be sold again. The balance amount of purchase price shall be payable on or before the 15th day of confirmation of sale and in default of payment within the stipulated period, the deposit towards earnest money will be forfeited and property will be resold. Any other statutory dues/ taxes/ stamp duty/ registration fee/ transfer fee have to be borne by the buyer separately. STAUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002

The borrower, co-borrowers and the guarantors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with up to dated interest and ancillary expenses before the date of auction, failing which the property will be auctioned/sold and the balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.

Date- 22.4.2017 **Authorised Officer**, Place- New Delhi **DCB Bank Limited**

Rampura Branch, New Delhi, E- AUCTION बैंक ऑफ़ बड़ीटा **SALE NOTICE Delhi Metro II** Bank of Baroda STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF MOVABLE & IMMOVABLE PROPERTIES LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD AND DOCUMENTS 24.05.2017 UPTO 5.00 P.M.

Sale of immovable property /ies mortgaged to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial assets and **Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No.54 of 2002)** Whereas, the Authorized Officer of Bank of Baroda had taken possession of the following property/ies pursuant to the notice issued under Sec 13(2) of the

Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in the following loan accounts with right to sell the same for realization of Bank's dues plus interest as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act proposes to realize the Bank's dues by sale of the said property/ies. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website DESCRIPTION OF IMMOVABLE / MOVABLE PROPERTIES

Name of th Account & Branch	Name of the owner	Demand Notice Date (Outstanding Amount	Reserve Price EMD Bid Increase Amount	Date/Time of e-Auction	A/c & IFSC Code for Bid Submis-sion & Name of the A/c
M/s Shrinati Ji Trading Co. Prop. Mr. Deepak Mittal Rampura Branch	out of property no.III/1040, situated at	01.12.2015 Rs. 98,60,054 /- plus future interest and other charges	Rs. 8.84 Lakhs Rs. 0.88 Lakh Rs. 0.25 Lac	25.05.2017 From 11.00 A.M. TO 12.00 Noon With further unlimited extension of time by 5 mins if the bid is placed in the last minute	A/c 21240013201005 in the name of Sundry Deposit RTGS Inward IFSC Code: BARB0TRDRAM where '0' is zero

Mr. Nitin Verma Mob: 8130999139, Ph: 011-28311164 24.05.2017, 11.00 AM to 5.00 PM **TERMS & CONDITIONS:**

1. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on any property. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property/ ies put on auction and claims/ rights/

2. The interested bidders who require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may contact M/S E-Procurement Technologies Ltd. (abc procure), Contact Person: Kushal Kothary, Mob.No.8980690773, Mr. Rikin Brahmaxatriya, Mob. No.09978591888, 079-40230808/807/806/831/832/833, Email ID: kushal@auctiontiger.net,

3. The bidders are advised to go through the detailed Terms & Conditions of e-Auction available on the Web Portal of M/s E-Procurement Technologies Ltd., (https://bob.auctiontiger.net) & (http://www.publishtenders.gov.in) before submitting their bids and taking part in the e-

This Notice is also treated as 15 days Statutory sale notice to borrower and Guarantor (L/Rs) Under Rule 8(6) Security Interest (Enforcement), Rules 2002.

Place: New Delhi, Date: 22.04.2017 **Authorized Officer, Bank of Baroda**

पंजाब नेशनल बैंक 🕒 punjab national bank BO: ALFA-II 4476, Phone 120-2321901, 2321902

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice(s) The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act

read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account. The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amounts and interest thereon.

POSSESSION NOTICE (for immovable property under Rule 8(1))

Description of the

property mortgaged

Owner of the

property.

			property.	proposty mongages	Date of possession notice affix	date of demand
	1.	SHRI SALEEM KHAN SAIFI S/O SHRI NAVI BAKSH SAIFI & SMT VARISHABKHAN SAIFI	S/O SHRI NAVI BAKSH	HOUSE SITUTATED at Plot no 11 BLOCK-I (PINK MOHUR ESTATE) SECTOR DELTA-2 GREATER NOIDA		Rs. 2563586/-(Rupees Twenty five lac sixty three thousand five hundred and eighty six
		W/O SALEEM KHAN SAIF	SALEEM KHAN SAIFI	GAUTAM BUDH NAGAR AREA200SQMTR	17.04.2017	only) plus interest w.e.f 01.10.2016
	2.	SHRI SURESH BABU SHARMA & SMT MAMTA DEEPAK B-180 FIRST	S/O Shri Ram Charan Lal			Rs. 6521605/-(Rupees Sixty five lac twenty one thousand six hundred and five only)plus
		FLOOR SECTOR 71 NOIDA, DIST GAUTAM BUDH NAGAR, UP		Cautam Buum Vagai	17.04.2017	i n t e r e s t w.e.f.01.01.2017
	3.	SHRI SANJAY ARORA S/O SHRI KRISHAN DEVARORA	SHRI KRISHAN DEV	98/3, Sector 50, NOIDA	1010112017	Rs. 16090532/- (Rupees one crore sixty lac ninety thousand five
		& SMT RUPALIKJA ARORA W/O SHRI SANJAYARORA	ARORA & SMT RUPALIKJA ARORA W/O SHRI SANJAY ARORA	Area 112.5 Sq Mtr. NOIDA G B NAGAR	17.04.2017	hundred thirty two only) plus interest w.e.f 01.01.2017
4	١.	M/S OMHNAU MACHINES		I I		Rs. 1601103.56/-+Rs. 2357082/-= Rs.
		PVT LTD., PLOT NO B-6/7 SITE-5 KASNA INDUSTRIAL AREA GREATER NOIDA DIST	Prakash Srivastava	B6/7,Surajpur Industrial Area Site-V, Kasna, Greater Noida opprox 451.10 sq		3958185.56/-(Rupees Thirty nine Lac fifty eight

Date: 21.04.2017, Place: Greater Noida

AREA GREATER NOIDA DIST

GAUTAM BUDH NAGAR UP

Name of

account

No.

Authorized officer, **Punjab national Bank**

01.10.2016

related documents carefully.

Company Secretary

17.04.2017

Date of

demand notice

Amount outstanding

as on the

thousand one hundred

eighty five paisa fifty six

only) plus interest w.e.

मायावती ने कतरे नसीमुद्दीन के पर

विष्णु मोहन नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कई असरदार नेताओं के पर कतर दिए हैं। इनमें माया के खासमखास नसीमुदीन सिदीकी का नाम भी शामिल है। मायावती ने इसके अलावा कुल 14 समन्वयकों को पद से हटा दिया है। इनमें कई समन्वयक नसीमुद्दीन के करीबी हैं। ये वे पदाधिकारी हैं जिनकी सिफारिशों पर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट दिए गए थे।

बदले हालात में मायावती ने नसीमुद्दीन को उत्तर प्रदेश में संगठन के काम से किनारे कर दिया है। नसीमुद्दीन को मध्य प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। मायावती अपने अन्य सिपहसालारों जैसे प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर के अलावा पर्व मंत्री लालजी वर्मा द्वारा निभाई गई जिम्मेदारी से भी असंतुष्ट थीं और उन्होंने इसके लिए पिछले चार दिनों से जारी अंदरूनी समीक्षा बैठक में इन सभी को आड़े हाथ भी

लिया। बावजूद इस नाराजगी के मायावती ने कोआर्डीनेटरों ने मनमानी की। पार्टी सूत्रों का प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर और राज्यसभा सदस्य डॉ. सिद्धार्थ को प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का दायित्व सौंपा है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर ने स्वीकार किया कि बहन जी ने यपी में संगठन के काम की जिम्मेदारी उनको व डॉ. सिद्धार्थ को सौंपी है। नसीमुद्दीन मध्य प्रदेश में संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे और कई समन्वयकों को हटा दिया गया है। प्रदेश

• नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश में संगठन के काम से हटा कर मध्य प्रदेश भेजा गया

अध्यक्ष ने बताया कि यह तय हुआ है कि इस बार बसपा निगम, परिषद व मैयर आदि के चुनाव अपने चुनाव चिह्न पर लड़ेगी। इससे पहले बसपा ने 1995 में इन चुनावों को अपने सिंबल पर लड़ा था। राजभर ने कहा कि इन चुनावों के लिए सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं।

विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के फौरन बाद ही पार्टी में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि इस बार उम्मीदवारों के चयन में

कहना है कि समीक्षा बैठक के दौरान बहन जी ने भी यही नाराजगी जाहिर की। आरोप यहां तक लगे कि कुछ उम्मीदवारों ने उम्मीदवारों से इसके लिए मनचाही रकम भी वसुली। समीक्षा बैठक में यह साफ कहा गया कि उम्मीदवारों के चयन में समन्वयकों उम्मीदवारों का चयन उनकी जीतने की क्षमता के बजाय के बजाए उनसे नजदीकियों या अन्य कारणों से किया और पार्टी आलाकमान को गलत सूचना दी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नसीमुद्दीन से नाराजगों की खास वजह यह रही कि अधिकतर समन्वयकों के चयन में नसीमुद्दीन ही जिम्मेदार पाए गए। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री अनंत मिश्र उर्फ अंट्र मिश्र को कोई अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी पर मायावती ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए कानपुर में इस वर्ष के अंत में संभावित मेयर चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार से शुरू हुई समीक्षा बैठक में कई और अहम फैसलें भी किए गए। कई समितियों को भी भंग किया गया। इसमें संगठनात्मक स्तर पर कई और बदलाव किए जाने की

अन्य भाजपा शासित राज्य भी कर रहे कर्ज माफी पर विचार

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

किसानों की कर्ज माफी योजना भारतीय जनता पार्टी शासित महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड जैसे राज्यों में लागू करने की कवायद चल रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लाई गई कर्ज माफी योजना को मॉडल बनाकर इन राज्यों की सरकारें मंथन कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर्ज माफी योजना को अहम मुद्दा माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व किसान मोर्चा के प्रमुख सतपाल मलिक के मुताबिक उप्र में किसानों की समस्याओं पर पहली बार किसी ने गौर किया। कर्ज माफी चुनाव में 'गेम चेंजर' रही। उन्होंने 'जनसत्ता' से कहा, 'सरकार की नीति रही और किसानों की अपेक्षा के अनुरूप काम हुआ है। प्रदेश के किसानों के हालात पर किसान मोर्चा ने विस्तृत जानकारी पार्टी को मृहैया कराई थी। उन जानकारियों के आधार पर ही पार्टी व सरकार ने यह योजना बनाई।' योगी सरकार के फैसले का असर देखते हए महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत प्रभाव से इस मॉडल पर अपने राज्य के किसानों के लिए योजना तैयार करनी शुरू कर दी है।

• भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व किसान मोर्चा के प्रमुख सतपाल मलिक का दावा

मलिक के मुताबिक सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में अब किसानों को लेकर काम हो रहा है। उनका संगठन सरकारी एजंसियों के साथ तालमेल बनाए हुए है। जरूरी ब्योरे उपलब्ध करा रहा है। देश भर में सिंचाई की समस्या को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने पुख्ता योजनाएं तैयार करने पर अपने मंत्रालय को लगाया है। कृषि उत्पादों की खरीद में भी केंद्र सरकार नीतियां बदलने

की योजना पर काम कर रही है। नीम कोटेड यूरिया लाए जाने से यूरिया की कालाबाजारी खत्म हुई है। अब किसानों को यूरिया मिलने में परेशानी नहीं हो रही है। किसान अपने कृषि उत्पाद सीधे बेच सकें, इसके लिए सरकार चौकस है। किसान मोर्चा के लोग भी विपणन स्थल पर नजर रख रहे हैं। योगी सरकार ने स्वयंसेवकों की मदद लेनी शुरू की है।

उत्तर प्रदेश चुनाव में लोगों ने जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर वोट किया। गरीबों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने घर का व्यक्ति माना है। गरीबों को पहली बार गैस सिलिंडर मिले। उप्र के अनुभव के आधार पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने देश भर में 90 दिन का कार्यक्रम हाथ में लिया है। इसके तहत बुथ स्तर पर संपर्क अभियान छेडा जा रहा है। सवाल पर उन्होंने कहा कि हम जाटों के आरक्षण के पक्ष में हैं। जाटों के साथ अमित शाह ने बात की और नतीजा सामने है।

गुर्जरों ने आंदोलन के लिए महापंचायत बुलाई

जनसत्ता ब्यूरो जयपुर, २१ अप्रैल।

विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर अदालती रोक के बाद इसका कोई हल नहीं निकालने पर गुर्जर समाज और सरकार के बीच विवाद बढता जा रहा है। सरकार के रवैए से नाराज होकर गुर्जरों ने दौसा जिले के सिकंदरा में 22 अप्रैल को महापंचायत बुलाने की तैयारियां तेज कर दी है। सरकार ने गुर्जरों से महापंचायत टालने की अपील की थी, इसे गुर्जर समाज ने ठुकरा दिया है। राज्य में गुर्जरों के विशेष पिछडा वर्ग के पांच फोसद आरक्षण के मसले पर हाईकोट को रोक के बाद सरकार को मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इस रोक के चलते ही अब गुर्जरों को ओबीसी के आरक्षण का भी लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार ने अब फैसला किया है कि गुर्जरों के विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मामला जब तक नहीं निपटता है तब तक उन्हें ओबीसी के आरक्षण कोटे का लाभ दिया जाए।

होटल के स्वीमिंग पूल में डूबने से लड़की की मौत

पणजी, २१ अप्रैल (भाषा)।

कर्नाटक के तुमकुर की रहने वाली 17 साल की एक लड़की की दक्षिण गोवा जिले में स्थित एक होटल के स्वीमिंग पुल में डूबने से मौत हो गई। यह होटल कोल्वा बीच के पास है। घटना शुक्रवार सुबह हुई जब लड़की और उसकी दो बहनें तैरने के लिए पूल में उतरीं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'जेबा सैयद डब गई उमराज सुदा – को पूल के पास मौजूद लोगों ने बचा लिया।' जवेरिया और उमराज को गोवा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया

यश भारती पुरस्कार की समीक्षा करो : योगी

लखनऊ, २१ अप्रैल (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'यश भारती' पुरस्कार की गहन समीक्षा के निर्देश दिए हैं। योगी ने गुरुवार देर रात संस्कृति विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा, 'यह पुरस्कार किस आधार और मापदंड पर दिए गए, इसकी समीक्षा की जाए। समीक्षा के बाद इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा, 'पुरस्कारों के वितरण के अपात्रों को अनावश्यक पुरस्कृत करने से परस्कार की गरिमा गिरती है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने यश भारती पुरस्कार देने गया और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। की शुरुआत की थी, जिसे उनके बेटे पूर्व

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जारी रखा। कला, संस्कृति, खेल, फिल्म, समाजसेवा आदि क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान करने वालों को यश भारती से सम्मानित किया गया है। पूर्व की सपा सरकार ने यश भारती से सम्मानित हस्तियों को पेंशन का भी प्रावधान किया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान कुशीनगर जिले में चलाई जा रही मैत्रेय परियोजना का जिक्र आने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि जबिक उसकी छोटी बहनें-जवेरिया सैयद और दौरान उसकी गरिमा का भी ध्यान रखा जाए। अनावश्यक भूमि अधिग्रहण के कारण इससे प्रभावित किसान इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसकी संकल्पना व इसे लागू करने का तरीका ठीक न होने के कारण यह अभी तक मृतं रूप नहीं ले पाई है।

http://morepen.com

http://www.nseindia.com

http://www.bseindia.com

कृते मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड

(थोमस पी. जोशुआ)

कम्पनी सचिव

मिलकर बनाएंगे युद्धपोत

जनसत्ता ब्यूरो

भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा जहाज निर्माण में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए शुक्रवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सहमति पत्र (एमओय) के तहत दोनों देश इस उद्देश्य के लिए अपने एक-एक शिपयार्ड को नामित करेंगे। सचिव (रक्षा उत्पाद) अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि भारत ने इस उद्देश्य के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) को नामित किया है, जबिक कोरिया जल्द ही घोषणा करेगा।

अब कर्नाटक में पटरी से उतरी ट्रेन ांजीकत कार्यालय : मोरपेन विलेज, नालागढ रोड, निकट बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश - 173205

• यात्रियों को कलगापुर से बीदर रेलवे

स्टेशन ले जाने के लिए बसों से रवाना किया

हैदराबाद पैसेंजर का

जरिए भेजा गया है।

बदलकर उसे मृदखेड, नांदेड,

निजामाबाद और सिकंदराबाद के

हैदराबाद, 21 अप्रैल (भाषा)।

कर्नाटक में औरंगाबाद-हैदराबाद यात्री ट्रेन का इंजन और तीन डिब्बे गरुवार देर रात पटरी से उतर गए। दक्षिण मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी और बताया कि इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। ट्रेन सिकंदराबाद मंडल में पर्ली विकाराबाद खंड में कर्नाटक के मिनट पर पटरी से उतर गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं।

एससीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एम उमा शंकर कुमार ने बताया कि पटरी को ट्रेनों के आवागमन योग्य बनाने के लिए युद्धस्तर पर कदम • दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ, ट्रेनों का सिकंदराबाद उठाए गए हैं। एससीआर के महाप्रबंधक विनोद परिचालन हुआ प्रभावित कुमार यादव हालात पर स्वयं निगरानी रख रहे हैं। और संबंधित अधिकारियों के साथ घटनास्थल की ओर खाना हो गए हैं।

यात्रियों को घटनास्थल से बाहर निकालने के प्रबंध किए गए हैं। है। ट्रेन संख्या 57548 पूर्णा-पटरी से उतरे डिब्बों को ट्रेन से अलग करने के बाद शेष ट्रेन आठ डिब्बों के साथ कलगापुर रेलवे स्टेशन की ओर खाना हो गई। यात्रियों को कलगापुर से बीदर रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए विशेष बसों का प्रबंध किया गया है। ट्रेन के यात्रियों को ले जाने के लिए बीदर हैदराबाद

इंटरिसटी एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण ट्रेन संख्या 57547 हैदराबाद-पूर्णा यात्री गाडी को शुक्रवार को रद्द कर देना पड़ा जबिक 57549 हैदराबाद औरंगाबाद यात्री गाड़ी को बीदर और औरंगाबाद के बीच आंशिक रूप से रद्द किया गया

इसके अलावा 17205 साईनगर शिरडी से काकीनाडा पोर्ट जाने वाली कलगापुर और भाल्की स्टेशनों के बीच देर रात करीब एक बजकर 50 ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन करके इसे परभाणी, पूर्णा, नांदेड़, निजामाबाद और सिंकराबाद के रास्ते भेजा गया है। ट्रेन संख्या ●औरंगाबाद–हैदराबाद ट्रेन का इंजन और 16593 नांदेड़-बंगलुरु एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित तीन डिब्बे देर रात पटरी से उतर गए।

करके इसे मुदखेड़, नांदेड़, निजामाबाद,

अ । ै विकाराबाद रास्ते

ए-7-8-9. सम्राट भवन. कमर्शियर

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार कर उपक्रम) आंवतिक कार्यातय-॥, बी-४७, तीसत तत्, काम्पूनिटी सेन्टर अंधोगिक क्षेत्र, फेल-1, नारायणा, नई दिल्ली-110028

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है पंजाब एण्ड सिंघ बैंक के ग्राहकों के लिए सूचना

काम्प्लैक्स, रणजीत नगर, नई दिल्ली–110008 निम्न पते पर स्थानांतरित (शिफ्ट) हो रही है प्लॉट नं. 1–2. प्रथम तल, कमर्शियल काम्प्लैक्स रणजीत नगर, नई दिल्ली–110008। यह शाखा दिनांक 27.04.2017 से नए परिसर में कार्य करेगी। आंचलिक प्रबंधक

🔊 इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड

मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड

(CIN: L24231HP1984PLC006028)

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं डिस्क्लोजर

आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के विनियमन 47 के अनुसरण में, अन्य तथ्यों के

साथ, 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुई तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय

परिणामों पर विचार, अनुमोदन एवं अभिलेखन हेत् कंपनी के निर्देशक मंडल की

बैठक शनिवार, 29 अप्रैल, 2017 को आयोजित होने हेतु निर्धारित है।

आगे अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबलिंक पर जाएं:

मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

दिनांक: 21.04.2017

स्थान : नई दिल्ली

पंजी. कार्यालय : सरिता विहार, दिल्ली-मथुरा रोड, नई दिल्ली 110 076 (भारत) कार्पोरेट पहचान नं. : L24232DL1988PLC030958 दूरभाष : 91-11-26925858, 26925801, फॅक्स : 91-11-26823629 ई-मेल : imcl@apollohospitals.com, वेबसाइट : apollohospdelhi.com

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में शेयरों का अंतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (6) तथा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") यथा संशोधित, के अनुपालन में ऐसे सभी शेयरों जिसके संदर्भ में किसी भी शेयर धारक द्वारा पिछले लगातार सात वर्षो या उससे अधिक से लाभांश प्राप्त नहीं किया गया है अथवा उसका दावा नहीं किया गया है के कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण प्राधिकरण के डीमेंट खाते में अंतरित किया जायेगा। उपरोक्त शेयरों के अंतरित की निर्धारित तिथि 31 मई, 2017 है। शेयरों को निर्धारित तिथि यानी 31 मई, 2017 से तीस दिनों की अवधि के भीतर अंतरित किया जायेगा।

कंपनी ने ऐसे संबंधित शेयरधारकों जिनके शेयरों को उक्त नियमावली के अंतर्गत आई ई पी एफ के डीमेट खाते में अंतरित किया जाना है, को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है तथा उन्हें लाभांश का शीघ्र दावा करने की सलाह दी जाती है। उनके नाम, फोलियों नंबर तथा डी पी आई डी – क्लांइट आई डी, जो आई ई पी एफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में अंतररण के लिए नियत है, सहित ऐसे शेयरधाराकों का संपूर्ण विवरण कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.apollohospdelhi.com. पर अपलोड कर दिया है।

यदि कंपनी 31 मई, 2017 अथवा विस्तारित तिथि तक संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है नियमावली में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में कंपनी बिना किसी अग्रिम सूचना के आई ई पी एफ प्राधिकरण की डीमेट खाता में अंतरित करेगी।

भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले सबंधित शेयरधारकों जिनके शेयरों को अंतरित किया जाना है. यह ध्यान रखें कि नियमावली के अनसार आई ई पी एफ प्राधिकरण की डीमेट खाता में शेयरों के अंतरण के लिए यह कंपनी उनके द्वारा धारित शेयर प्रमाण-पत्रों के बदले में डुप्लीकेट शेयर प्रमाण–पत्र जारी करेगी। कृप्या ध्यान दे ऐसे डुप्लीकेट शेयर प्रमाण–पत्र जारी, करने के उपरांत, उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेंगे तथा गैर-परक्राम्य समझा जायेगा। उन मामलों में, जहां संबंधित शेयरहोल्डरों द्वारा शेयर डीमेट रूप में धारित किये है, कंपनी आई ई पी एफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में अंतरण के लिए कारपोरेट कार्रवाई द्वारा डिपोजिटरी को सूचित करेगी।

आगे, संबंधित शेयरधारक यह ध्यान रखें कि कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को नियमावली के अनुसार आई ई पी एफ प्राधिकरण में भौतिक शेयरों के अंतरण के उदेश्य से कंपनी द्वारा डप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र (त्रों) को जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा। यह भी ध्यान रखें कि दावा रहित लांभाशों तथा आई ई पी एफ में अंतरित इक्विटी शेयरों का कंपनी के प्रति कोई दावा नहीं होगा। नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर शेयरधारक अंतरित किये गये शेयरों के साथ ही साथ अप्रदत लाभांशों को वापस प्राप्त करने के लिए आई ई पी एफ प्राधिकरण में अपने दावे प्रस्तुत कर सकते है।

यदि विषय-वस्तु पर कोई जिज्ञासा हो तो वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (आर टी ए) - मैं लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि. /ईकाई: इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कारपीरशन लिमिटेड, 44, दूसरा तल, कम्यनिटी सेंटर, नारायणा औधौगिक क्षेत्र, फेस-1 नई दिल्ली 110028 से संपर्क कर सकते है। कृते इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड

दिनांक : 21 अप्रैल, 2017

स्थानः नई दिल्ली

भारत और दक्षिण कोरिया

नई दिल्ली, 21 अप्रैल।

कॉर्पोरेशन बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक)

दिलशाद गार्डन शाखा (463)/एफ14, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095

कब्जा सूचना [(नियम-8 (1)] (अचल सम्पत्ति के लिए) जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम,

2002 (2002 के 54) के अंतर्गत कॉर्पोरेशन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना तिथि 18.12.2016 जारी कर निम्नलिखित ऋणधारकों तथा गारंटरों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित कुल राशि रु. 21702664/- (रुपए दो करोड सत्तरह लाख दो हजार छः सौ चौसठ मात्र) के साथ मासिक दरों पर मिश्रित ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक तथा गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय अन्य चार्जेज के साथ यहां नीचे वर्णित राशि के लिए कॉर्पोरेशन बैंक, दिलशाद गार्डन शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का . 3502, 33 फुटा मैन **रु. 21702664/-** (रुपए दो मुस्तफाबाद, करोड़ सत्तरह लाख दो हजार 1) इंडिया ट्रेडिंग क. 1469, गली नं. 48, रोड, टेन्ट वाला स्कूल के निकट, जाफराबाद, दिल्ली-110094, छः सौ चौसठ मात्र) तथा 260 वर्ग 02.00% प्रति वर्ष की दर से दंड गारंटर्स: यार्ड्स, 3 साइड ओपन, ब्याज के साथ संबंधित 1. श्री शेर खान मलिक 1469, गली नं. भृतल बिल्डिंग जो सुविधाओं के लिए मासिक रेस्ट श्रीमती मीना मलिक के पर लागु ब्याज तथा अन्य 48. जाफराबाद. शाहदरा. दिल्ली। नाम में है। चार्जेज।

स्थानः दिलशाद गार्डन

0463/CVPOD/01/130007

प्राधिकृत अधिकारी कॉर्पोरेशन बैंक

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 सीआईएनः L27109DL1973GOI006454

दुरभाषः +91 1124367481, फैक्सः +011 -24367015 हेमेलः investor.relation@sailex.com, वेबसाइटः www.sail.co.in इक्विटी शेयरधारकों के लिए सूचना कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधी (IEPF) में हस्तांतरण

यह सचना, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और रिफंड) नियम, 2016 के साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की गई है, जो संशोधित ('नियमों') के लिए कॉपॅरिट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा अधिसूचित है। नियमों, और अन्य बातों के साथ-साथ, वो सभी शेयर जिनके सम्बन्ध में लाभांश का दावा या भुगतान लगातार 7 साल या उससे ज़्यादा समय से नहीं किया गया है, उन्हें निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में (IEPF) सन्देही खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

कंपनी ने सम्बन्धित शेयरधारकों, जिनके लाभांश का लगातार 7 साल से दावा या भगतान नहीं किया गया है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/R&TA के साथ IEPF सन्देही खाते में हस्तांतरित करने के लिए देय शेयरों का सम्पूर्ण विवरण देते हुए उनके द्वारा दिए गए वर्तमान पते पर दिसंबर, 2016 में प्रत्येक शेयरधारक को सूचित किया गया है। कंपनी ने सलाह के तौर पर ऐसे शेयरधारकों को दावा ना किए गए लाभांश को भूनाने के लिए एक सूचना भी अख़बारों में प्रकाशित की है। कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और IEPF सन्देही खाते में हस्तांतरित करने के लिए देय शेयरों का विवरण अपनी वेबसाइट www.sail.co.in में अपलोड किया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि IEPF सन्देही खाते में हस्तांतरण योग्य शेयरों के विवरण की पृष्टि के लिए उपरोक्त वेबसाइट पर 'Investor Relation" शीर्षक को देखें।

MCA ने उपरोक्त शेयरों को IEPF सन्देही खाते में हस्तांतरित करने की देय तिथि 31 मई. 2017 तय करते हुए IEPF संशोधित नियमों, 2017 की सूचना 28 फरवरी, 2017 को सूचित की है। शेयर धारकों को दावा ना किए गए लाभांश का दावा 31 मई, 2017 तक करने की सलाह दी गई है। शेयरधारककंपनी से रजिस्टर्ड कार्यालय (या ई-मेल <u>investor.relation@sailex.com</u> अथवा secy.sail@sailex.com) अथवा उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (पताः एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, यूनिटः स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, प्रथम तल, F-65 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-।, नई दिल्ली-110020, फोनः 91-11-41406149 पर संपर्क कर सकते हैं) या आगे की जानकारी के लिए admin@mcsregistrars.com पर ई-मेल कर सकते हैं और कंपनी के पास पड़े हुए बेदावे लाभांश के वैध दावे को देय तिथि से पहले दर्ज करा सकते | हैं। यदि 31 मई, 2017 तक आपका जवाब प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी देय प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमों की ज़रूरतों के अनुसार अपना रूख अपनाकर सम्बन्धित शेयरों को बिना किसी आगामी सूचना के IEPF सन्देही खाते में हस्तांतरित कर देगी, जो इस प्रकार हैं:

(i) शेयरों को भौतिक रूप में रखने के मामले में - इप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करके उन्हें IEPF सन्देही खाते में हस्तांतरित करना। ऐसे मामले में, असली शेयर प्रमाणपत्र(ऑ) को जो उनके नाम में रजिस्टर्ड हैं अपने-आप ही रह माना जाएगा।

ii) शेयरों को डीमैट माध्यम में रखने के मामले में - डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए निगमित कार्यवाही के रूप में उचित अनुदेश द्वारा IEPF प्राधिकरण के डीमैट अकाउंट में जमा किया

हालांकि, शेयरधारक IEPF प्राधिकरण के नियमों के अनुसार यहाँ ऐसे दस्तावेज़ जमा कराने पर लाभांश और सम्बन्धित शेयरों तथा ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी फ़ायदों सहित दोनों का दावा कर सकते हैं, यदि कोई हो। इस मामले में शेयरधारक www.iepf.gov.in पर उपलब्ध विवरण

भी देख सकते हैं। उपरोक्त नियमों के अनुसार बेदावे लाभांश की रकम के सम्बन्ध में और IEPF को हस्तांतरित किए गए शेयरों के लिए कंपनी किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

कृते स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः २०, एप्रिल, २०17

हस्ता/-

अजय कुमार सिंघल

उपाध्यक्ष सह कंपनी सचिव

(एम. सी. जैन) कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 कॉर्पोरेंट आइडेंटिटी नम्बर: L27109DL1973GOI006454, वेबसाइट: www.sail.co.in

हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF PUBLIC SHAREHOLDERS OF **BKG CORP LIMITED** (Formerly: BKG Energy Limited / Victor Cables Limited) Registered Office: V-37/24 Dlf, Phase - III Gurgaon, Haryana- 122001;

Correspondence Address: 2nd Floor, A-86, Bhishma Pitamah Marg (Opp. Defence

Colony), New Delhi- 110003

CIN: U31300HR1980PLC010204; Email ID: bkginvestors@gmail.com & victorcables@vsnl.com; Tel: 011-41750900 This Public Announcement ("PA") is being issued by Mr. Shivraj Krishna Gupta, Mr. Namit Gupta Mrs. Rita Gupta and Coral Wireless Private Ltd. ("Promoter Group") of BKG Corp Limited ("the Company") pursuant to the Circular issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI)

SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 dated, 10th October, 2016, to provide Exit Opportunity to al

The Company, being exclusively listed at Delhi Stock Exchange Limited ('DSE'), upon de recognition of DSE, has been placed at the Dissemination Board of BSE Ltd. The Management after careful consideration was of the opinion that, the Company is not eligible to migrate to mainboard of nationwide stock exchanges and decided to provide an Exit opportunity to all Public

EXIT OFFER DETAILS:

Public Shareholders (Non-Promoters) of the Company

Offer Size: The Promoter Group, hereby makes this offer, for acquiring Equity Shares from the Public Shareholders aggregating to 5,79,222 (Five Lakh Seventy Nine Thousand Two Hundred Twenty Two) of face value of Rs. 10/- (Ten Rupees only) each as on the date of submission of Action Plan to BSE Ltd. i.e. 19th January, 2017

Offer Price/Consideration: As per the Valuation Report, Offer Price is Rs. 1.24/-(One Rupee and Twenty Four Paisa only) per Equity Share, calculated after taking into consideration the applicable valuation methodologies by Corporate Capital Ventures Private Limited, a SEBI approved Category-1 Merchant Banker, being appointed by the Promoter Group as the Independent Valuer from BSE's panel of expert valuers. The said Valuation report will be available for inspection at the Correspondence Address of Company during office hours for a period of 10 days from the date of this Public Announcement.

Exit Offer Period: The tendering period will commence from 28th April, 2017 and will end on 4th May, 2017 ("Tendering Period") during which the Public Shareholders can tender their Equity Shares in favour of the Promoter Group by dispatching the required documents (as specifically provided in the Exit Offer Letter to be dispatched to Public Shareholders separately), by clearly marking the envelope 'BKG CORP LIMITED - EXIT OFFER' either by Registered post' Speed post/ Courier/ Hand delivery at their own risk at the Correspondence Address of the Company at 2nd Floor, A-86, Bhishma Pitamah Marg (Opp. Defence Colony), New Delhi- 110003, Further, the Public Shareholders may note that, those who could not tender their Equity Shares during the mentioned tendering period, may do so till the Completion of 1 year post closure of the tendering period, i.e. 3rd May, 2018 ("Exit Offer Period") at the same price (mentioned above) determined by the Independent Valuer.

Mode of Payment: The Promoter Group has opened an Escrow Account with the Kotak Mahindra Bank, in the name and style of 'BKG Exit Offer Account' bearing Account No. 9873750901, and has deposited therein an amount of Rs.7,18,236/- (Seven Lakh Eighteen Thousand Two Hundred Thirty Six only), equivalent to 100% of the Total Consideration (Exit Offer price multiplied by Total No. of Equity Shares held by Public Shareholders). Upon receipt of complete documents and checking their genuineness, Offering Promoters shall acquire the tendered Equity Shares.

The payment shall be made within maximum 15 working days of closing of the Tendering Period The procedure for tendering the Equity Shares during the Exit Offer Period shall be same except the payment of consideration, which shall be released on a monthly basis i.e. within maximum 15 working days of the end of relevant calendar month in which Equity Shares have been validly

tendered by the Public Shareholders ("Monthly Payment Cycle"). Shareholding Pattern as on the date of Submitting Action Plan to BSE Ltd. (19th January, 2017).

Category	Number of shares	Percentage of Shareholding (%)
Promoter Group	19,20,778	76.83
Public	5,79,222	23.17
Total	25,00,000	100

 Promoter accepts full responsibility for the Information contained in this Public Announcement. 2. The Public Announcement is expected to be available on website of the BSE Ltd. For any queries regarding the content of this Public Announcement: Contact Person: Mr. Shivrai Krishna Gupta

Tel: 011-41750900 E-mail: victorcables@vsnl.com

Date: 21st April 2017

Place: New Delhi

On behalf of Promoter Group Shivraj Krishna Gupta (Promoter)

BKG Corp Limited

Shivalik Bimetal Controls Ltd.

Registered office:-16 18, New Electronics Complex, Chambaghat Distt. Solan HP 173213 Head Office: H-2, Suneja Chambers, IInd Floor, Alaknanda Commercial Complex, New Delhi-110019 Website:-www.shivalikbimetals.com, Email: investor@shivalikbimetals.com

PUBLIC NOTICE FOR TRANSFER OF SHARES TO DEMAT ACCOUNT OF THE IEPF AUTHORITY ("IEPFA") TO THE EQUITY SHAREHOLDERS SITUATION I: TRANSFER OF SHARES TO IEPF ON WHICH DIVIDEND UNPAID

UNCLAIMED SINCE FY 2008-09 (FINAL DIVIDEND)

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA")w.e.f 07th September, 2016 and as amended on 28thFebruary, 2017, the equity shares of the Company in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to DEMAT account of Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority

Members are requested to encash their respective dividend(s) for all the last 7 years at the earliest before the expiry of transfer due date i.e 31st May, 2017, MCA has notified the IEPF Amendment Rules, 2017 which came into force on 28th February, 2017 notifying therein 31st May, 2017 as the due date of transfer of shares in respect of dividend have not been claimed paid for last 7 years since final dividend for the financial year 2008-09.

SITUATION II: TRANSFER OF SHARES TO IEPF ON WHICH DIVIDEND UNPAID/ UNCLAIMED SINCE FY 2009-10 (INTERIM DIVIDEND)

Members are requested to encash their respective dividend(s) for all the last 7 years at the earliest before the expiry of transfer due date i.e 10th June, 2017, as per IEPF Accounting, udit, Transfer and Refund) Rules, 2017, failing which the underlying shares in respect which dividend warrant(s) remain unclaimed for last 7 years consecutively from the financial PROCESS FOR CLAIMING ABOVE SAID DIVIDEND & SHARES

In view of above, the members who have not yet encashed their dividend warrant(s) for the

last 7 years consecutively once again requested to please submitting the written application at the earliest along with a self-attested copy of PAN card, cancelled cheque, address proof and the original un-cashed dividend warrant (if any) or a duly filled indemnity bond on plain paper (available on the website of our RTA i.e. www.masserv.com) to RTA/the Company as Registrar & Share Transfer Agen The Company

Company Secretary

Shivalik Bimetal Controls Ltd.

Okhla Industrial Area Phase-II, H-2, Suneja Chambers, IInd Floor, Alaknanda Commercial Complex, New Delhi-110019 New Delhi-110020, Delhi, INDIA Ph No. +91 11 26387281, 82, 83 Ph No. +91 -11-26027174/175 Email id.: info@masserv.com Fax No.:-011-26387384

MAS Services Limited

Place : New Delhi

Date: 21.04.2017

T-34, IInd Floor,

Email id.: investor@shivalikbimetals.com Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has sent individual notices to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority, at their latest available address registered with the Company, advising them to claim the dividends.

The Company has uploaded details of concerned shareholders whose shares are due for transfer to the DEMAT account of the IEPF Authority on its website at The concerned shareholders who are holding shares in DEMAT form, may please note that the Company shall inform the concerned depository by way of corporate action, where the shareholders have their accounts for transfer of the shares in favour of the IEPF Authority.

The concerned shareholders who are holding shares in physical form, may please note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them and after issue of duplicate share certificate, the Company shall inform the concerned depository by way of corporate action to convert the shares underlying such duplicate share certificate(s) into DEMAT form and transfer in favour of the IEPF Authority. The shareholder(s) may please note that the details uploaded by the Company on its website shall deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of physical shares to the said DEMAT account. All benefits accruing on such shares viz dividend, bonus shares, split, consolidation, fraction etc. except right issue shall also be transferred to IEPFA. The Concerned shareholders may note that, upon such transfer, they can claim the said share(s) along with the dividend(s) from IEPF Authority after following the procedure prescribed under IEPF Rules. No claim shall. however, lie against the Company in respect of the said unclaimed dividends and the shares transferred as above.

By Order of the Board Shivalik Bimetal Controls Ltd. Aarti Jassal Company Secretary